

STL/SEC/2023-2024 Date: 17-08-2023

Manager – Department of Corporate Services Bombay Stock Exchange Ltd., Registered Office: Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

Dear Sir/Madam,

Company Scrip Code: 514264 | ISIN: INE707B01010

Subject: Newspapers Publication regarding the 37th Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (YC) Facility or Other Audio-Visual Means (OAVM).

- 1. This is to submit that the Company has published today i.e., July 17, 2023, the newspaper advertisement with regard to the captioned subject matter in the following newspapers:
 - a. Jansatta (Hindi Newspaper) dated 17-08-2023;
 - b. Financial Express (English Newspaper) dated 17-08-2023.
- 2. Copy of the above notice as published in the newspapers are enclosed.

Please take the same on your record.

Yours faithfully,
For SEASONS TEXTILES LIMITED

Saurabh Arora

Digitally signed by Saurabh Ancon
Dr. CeN, 8-th-UTR Andreh,
2.5.4.2.0-5748th5 1677Addreh,
2.5.4.

SAURABH ARORA

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

SEASONS TEXTILES LIMITED

Corp Office/Mailing Address: B-18, Sectror-5, Noida, 201 301 (U.P.), INDIA

Tel: -91 120 4690000, Fax: +91 120 4351485

Registered Office: 26, Froze Gandhi Road (Lower Ground Floor), Lajpat Nagar 3, New Delhi

South Delhi 110024

Tel: +91 11 47675000, fax: +91 11 41805599

Email: cs.stl@seasonsworld.com, Website: www. Seasonsworld.com

CIN: L74999DL1986PLC024058

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



Cholamandalam investment and Finance Company Limited

Corporate Office: No.2, Dare House, 1st Floor, NSC Bose Road, Chennai – 600 001. Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Contact No: Mr. Sudhir Tomar Mob No. 9818460101

SUB: Re-call of Auction Notice under Rule 9(1) dated 31.07.2023- Loan Account No. X0HEDHE00001323382

Account No. and Name of borrower, Descriptions of the property co- borrower, Mortgagors /Properties Loan Account No X0HEDHE00001323382)

L. AMIT ARORA 2. MANSI ARORA All above At: B-1/504, Varun Appt, Sec-9 Rohini, New Delhi-110085

FLAT BEARING NO. B-1/504, SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF VARUN VIHAR, CGHSL ON PLOT NO.12(SAID PLOT) AT SECTOR-9 ROHINI, DELHI-110085

Form No. 3 [See Regulation -15(1)(a)] /16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh

Additional space allotted on 3rd and 4th Floor also)

Case No. OA/1282/2019

Summons under sub-section (4) of section 19 of

the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the

Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Syndicate Bank

M/s Shiv Bricks Udyog

D/W/S/O- Shri Kapil Bainsla, M/s Shiv

Bricks Udyog, VPO Baroli Rasulpur Road

Palwal Through Its Proprietor, 2nd

Address:- 323/9, Church Road, Faridabad

Haryana. Also At: 323/9, Church Road

Shri Shyam Charan Bainsla R/o 323/9.

Kapil Bainsla S/o Shyam Charan Bainsla

S/o Radhey Lal R/o 323/9 Church Road,

Summons

Whereas, OA/1282/2019 was listed before

Hon'ble Presiding Officer/Registrar or

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue

summons/notice on the said application unde

section 19(4) of the Act, (OA) filed against you

for recovery of debts of Rs.26,84,960.17/-

(Rupees Twenty Six Lakh Eighty Four

Thousand Nine Hundred Sixty and

Seventeen paisa only) (application along with

In accordance with sub-section (4) of section 19 of

the Act, you, the defendants are directed as

(i) To show cause within thirty days of the service

of summons as to why relief prayed for should

(ii) To disclose particulars of properties or assets

other than properties and assets specified by the

applicant under serial number 3A of the origina

(iii) You are restrained From dealing with or

disposing of secured assets or such other assets

and properties disclosed under serial number

3A of the original application, pending hearing

and disposal of the application for attachment of

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or

otherwise, except in the ordinary course of his

business any of the assets over which security

interest is created and/or other assets and

properties specified or disclosed under serial

number 3A of the original application without the

(v) You shall be liable to account for the sale

proceeds realised by sale of secured assets or

other assets and properties in the ordinary

course of business and deposit such sale

proceeds in the account maintained with the

bank or financial institutions holding security

You are also directed to file the written statemen

with a copy thereof furnished to the applicant and

to appear before Registrar on 23/08/2023 at

10:30 A.M. failing which the application shall be

Given under my hand and the seal of this

Registrar I/c

DRT-II, Chandigarh

heard and decided in your absence.

tribunal on this date: 09/08/2023.

Contact

prior approval of the Tribunal.

interest over such assets.

copies of documents etc. annexed).

Church Road, Faridabad Haryana,

1) M/s Shiv Bricks Udyog

Faridabad Haryana.

Faridabad, Haryana.

14/03/2023.

not be granted.

properties.

Exh. No. 19687

It is hereby informed that the Auction Notice under Rule 9(1) issued on 31.07.2023 for the above loan account is hereby withdrawn. It is pertinent to mention that the same is being withdrawn without prejudice to the rights of Cholamandalam Investment and Finance Company Limited to issue fresh Auction Notice being a Secured Creditor under the SARFAESI ACT, 2002. Sd/- Authorised Officer Cholamandalam

Investment and Finance Company Limited Place: DELHI, NCR Date: 17-08-2023



Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and three Months ended 30,06,2023 published on 15.08.2023. The date mentioned in the results may be read as 14.08.2023 instead of 12.08.2023.

Vipul Goel Director DIN: 00064274



SEASONS TEXTILES LIMITED CIN -L74999DL1986PLC024058

Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485, Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com Notice of 37th Annual General Meeting NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited scheduled to be held on Friday, 29" September 2023, at 11:30 AM, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Video Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice of the AGM

In view of the continuing the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated 14/2020 17/2020 20/2020 02/2021 21/2021 and 10/2022 dated April 8, 2020 April 13, 2020. May 5,2020 January 13, 2021 December 14,2021 and December 28,2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 37th AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent only by electronic mode to those Members whose email address are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website, www.seasonsworld.comand website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited; www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

The Company is providing Remote e-Voting facility ("Remote e-Voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for Remote e-Voting/e-Voting is provided in the Notice of the AGM.

SEBI vide circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e. Postal Address with PIN Code, email address, mobile number, bank account details) and nomination details by holders of securities in physical form, Any service request or complaint received from the Member will not be processed until the aforesaid details/documents are provided to RTA and on or after October 01,2023, in case any of the above cited documents details are not available in the folio(s), RTA shall be constrained to freeze such folio(s). Relevant details and prescribed forms in this regard are available on website of the Company (www.seasonsworld.com). Shareholders holding shares in physical mode are requested to comply with the above.

The Shareholders are requested to register/update their e-mail addresses and mobile number on or before August 23,2023 to receive Annual Report and Notice of AGM for the financial year ended March 31,2023.

If your email ID is already registered with the Company/Depository Participant, login details for e-Voting are being sent on your registered email address.


In case you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual


Report and login details for e-Voting. Physical Send a request to the Skyline Financial Services Pvt Ltd, Registrar and Share

Holding Transfer Agent of the Company at compliances@skylinerta.com providing Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN card for registering email address. Demat Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address Holding as per the process advised by your DP.

The Annual Report for financial year 2022-23 and Notice of 37" AGM of the Company will be sent to all the members at their registered email address in accordance with provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

By order of the Board For Seasons Textiles Limited Sd/ Date: 17/08/2023 SAURABH ARORA Company Secretary and Compliance Officer





E-AUCTION NOTICE E-AUCTION ON 26.09.2023 PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER SARFAESI ACT, 2002

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules

Nature of Reserve EMD

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, The KarurVysya Bank Ltd, possession has been taken by the Authorised Officer of The KarurVysya Bank Ltd., Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is

what is", "without recourse", and "Whatever there is" and "Without recourse" as per given details below:

Location of

Feet

No.	Borrower	Branch	property	property	Price (in Rs.)	amount (in Rs.)	person / Ph.No. / Email
1.	M/s World Cargo Movers	East of Kailash	Commercial Office space No. G -105 (UGF rear side Property No188 (old No) 252-J (new No.), part of Khasra No. 185/150/2/1 and 185/2/2,), Village Garhi Jharia Maria, Sant Nagar, New Delhi — 110 065 admeasuring approx. 376.25 Sq		49,00,000	4,90,000	Mr. Rajesh Thakkar 9910972101 rajeshthakkar@ kvbmail.com

Details of borrowers:

S. Name of

Lending

East Of Kailash Branch Name of Borrower - M/s World Cargo Movers Represented by its proprietor Mr. Vishwa Kalan Gutpa, 105 Sai Plaza, 187-188, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110065 (2) Mr. Vishwa Kalyan Gupta, S/o Mr. K.L. Gupta R/o 109, Anand Vihar, Pitampura, New Delhi – 110 034 The Total due: As on 10.08.2023 is Rs. 27,00,275.60 (Rupees Twenty Seven Lakh Two Hundred Seventy Five and Paisa Sixty Only) with further interest, Costs, other charges and expenses thereon.

Mortgage Assets:

Commercial office space at Property No.-188 (old No) 252-J (new No.), part of Khasra No. 185/150/2/1 and 185/2/2, Office Space No. G -105 (UGF rear side), Village Garhi Jharia Maria, Sant Nagar, New Delhi - 110 065 approximately

admeasuring 376.25 Sq. Feet and bounded as below:

North : Road South : Road	East : Property No. 187	West : Road
Reserve Price - Rs. 49,00,000.00	EMD - Rs. 4,90,000.00	
Inspection of the Asset	All working Days –From 17.08.2023 to 25.09.202 5.00 pm	3 between 11.00 am to

Last date and time for submitting Date: 25.09.2023 online Tender & Application Forms Time: by 5 pm The E-Auction will take place through portal on 26.09.2023 between 11.00 a.m to Date and Time of E-Auction 11.30 a.m. with unlimited extensions of 5 minutes each till sale is The Karur Vysya Bank Ltd, Central office in favour of above accounts Nodal Bank account Name Account No: 1101351000000973, IFSC Code: KVBL0001101.

Contact Person & Phone No For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in our Bank's/ Secured Creditor's website i.e www.kvb.co.in/Property Under Auction and also at the web portal https://bankauctions.in of our e auction service provider M/s.4Closure.

Prior Encumbrance - NIL (Brought to the knowledge of Bank)

Statutory 30 days' Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act, 2002 The borrower/s and guarantor/s are hereby notified to pay the dues as mentioned above along with up to date interest and

ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the Schedule property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. AUTHORIZED OFFICER

Place: Delhi Date: 17.08.2023 THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

(many trend and many) CASSAL (Many Many Many Many DEHRADUN ROAD RISHIKESH 249201 accounts. Notices sent to them by Registered Post have been returned undelivered, to the Bank. They are

therefore requested to pay off the liability and other charges and redeem the pledged securities on or before 22.08.2023 (date) failing which they said securities will be sold by the Bank in public auction at the cost of the borrower at the Bank's premises at 4:00 P.M. on or on any other convenient date thereafter without further notice, at the absolute discretion of the Bank. S.No. Name Of Borrower Address of Borrower Date of Loan Loan Number

GRAM CHACHKANDA GONI TEHRI GA Mr. Goverdhan Baloni 22.02.2022 184000856149 **GARHWAL UTTARAKHAND 249161** Contact No. - Branch Manager 9456591044 NOTE: Amount outstanding should include all liabilities of the party under Gold Loans as well as any other loan/credit facility Place: Debradun Date: 16.08.2023

THE RESIDENCE

Ballabgarh Dist. Faridabad - 121104

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 08/01/2023 calling upon the borrower M/s Chanchal Flour Mill through its proprietor Sri. Prem Chand to repay the amount mentioned in the notice being Rs.19,31,684.54/- (Rupees Nineteen Lakh Thirty One Thousand Six Hundred Eighty Four and Fifty Four Paisa Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein

8 & 9 of the said Rule on this 14" day of August of the year 2023. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.19,31,684.54/- (Rupees Nineteen Lakh Thirty One

Description of the Immovable Property All that Part and Parcel of the Property measuring 1 Kanal 12 Maria comprised in Khewat no 18 Khatoni no 28, Rect no 24, Kila no 18(4-12) situated within the revenue estate of village Panhera Khurd, Tehsil: Ballabgarh, Sub Tehsil: Mohna, District Faridabad, Haryana. Bounded: By North: Property of Mr. Charan Singh, By South: Veterinary Hospital, By East: Road, By West

Date: 17-08-2023 Place: Panhera Khurd Authorised Officer, Canara Bank

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L65910UP1993PLC070612

R/o: Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002

Email ID: annainfra@gmail.com, Website: www.annainfrastructures.com, Telephone: 0562-4060806 Public Notice - 31" Annual General Meeting

The 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 11" September, 2023 at 1:00 p.m. (IST) at the registered office of the company situated at Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India 'SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 along with other applicable Circulars issued in this regard by MCA and SEBI, to transact the businesses that will be set

AGM and Annual report for the financial year 2022-23 to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/ Depository

containing the Notice and the Explanatory Statement of the Company will be available on the website of the Company at www.annainfrastructures.comand on website of Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com

address/mobile no, are requested to follow the below instructions:

	Registen/update the details in prescribed form ISR-1 with RTA of the Company.
Shareholders holding shares in Dematerialized Form	Register/update the details in your Demat Account, as per process advised by your DP.

shareholders in respect of business to be transacted at the AGM and this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

In case e-mail id is registered with the Company/RTA/DP	Detailed procedure w.r.t. e-voting will be sent to the registered e-mail id and also will be available in the notice of AGM.
In case e-mail id is not registered with the	Detailed procedure w.r.t. e-voting will be
available in Company/RTA/DP	the notice of AGM

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company, as on cut-off date i.e. Monday, 04" September, 2023, only shall be entitled to avail the facility of e-voting, either through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. For and on behalf of

Anna Infrastructures Limited (Ayesha Jain Mahajan) Date: 16/08/2023 Company Secretary & Compliance Officer Place : Agra Membership No.: F-9711

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules")

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (al singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Contract No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Total Outstanding Dues (Rs.) as on below date*	Date of Demand Notice Date of NPA	
10553 328	Mr. Suman Shel Alias Mr. Suman Seal (Borrower) and Mrs. Monika Seal & Mrs. Swapna Sil Alias Sapna Sil & Mr. Kamal Biswas (Co-Borrower)	of Rs. 1469619/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Nine	and the best of the best beautiful and the best to be the best to be	

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties "All piece and parcel of Residential Flat bearing No. F - 02, First Floor, LIG, Builtup on Freehold Plot bearing No. 05/448, Admeasuring Covered Area - 41.805 Sq. Mtrs. (Without Roof Rights), Situated at Plot No. 448, Sector - 05, Vaishali, Ghaziabad - 201010 (Uttar Pradesh), with all common amenities as mentioned in sale deed. Boundaries: East: 33' Wide Road, West: Plot No. 5/446: North: Plot No. 5/449, South: Open Area.*

		As on 03-08-2023, an amount of Rs.	
HL03	Sharma S/o Mr.	1704006/- (Rupees Seventeen Lakh	06-05-2023
		Four Thousand Six Only) is due and	
01001	Through his Legal Heirs	payable by you under the loan account	
1002	(Borrower) and Mrs.	TCHHL0359000100110022 and an	
2 &	Reena Sharma (Co-	amount of Rs. 61324/- (Rupees Sixty One	
TCHI	Borrower/Legal Heir) &	Thousand Three Hundred Twenty Four	
N035	Mrs. Kailash (Legal Heir)	Only) is due and payable by you under the	
9000	& Mr. Kunal Sharma	loan account TCHIN0359000100113122	
10011	(Legal Heir) & Ms. Ridhi	totaling to Rs. 1765330 (Rupees	
3122		Seventeen Lakh Sixty Five Thousand Three Hundred Thirty only)	

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties "All piece and Parcel of Residential Property being Eastern Side Portion (Without Roof Rights) of Second Floor (being Part of Freehold Builtup Property bearing No. 23), Admeasuring 100 Sq. Yards i.e. 83.61 Sq. Mtrs. (Adjoining to Property No. C - 24), Out of Total Area Admeasuring 200 Sq. Yards, Comprised in Khasra Nos. 262/258/217/4/3, Along with ¼ Undivided share in Stilt Parking on the Ground Floor, Situated at Area of Village Bharola, Locality known as Adarsh Nagar, Block C, New Acharya Kriplani Road, Delhi 110033, with all common amenities mentioned in Sale Deed. with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective

Demand Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences. The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said

Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Sd/-Authorised Officer,

Place:- Delhi & UP

For Tata Capital Housing Finance Limited Place: Delhi

Date: 17/08/2023



Place: New Delhi

Date: 14.08.2023

2. 98302 MRS. BHARTI

TCHHL Mr. Neeraj Agrawal S/o

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED

CIN NO. L45101DL1979PLC009654 Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Website - www.acilnet.com Email - mail@acilnet.com

Statement of (Standalone and Consolidated) Un-Audited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2023 (Rs. in Lakhs)

266		Standalone				Consolidated		
S. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Year Ended	Quarter Ended		
NO.		30-06-2023 (Un-Audited)	31-03-2023 (Audited)	30-06-2022 (Un-Audited)	31-03-2023 (Audited)	30-06-2023 (Un-Audited)	31-03-2023 (Audited)	
1	Total income from operations	76361.23	86305.25	60924.71	283839.33	76361.23	86305.25	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)	6685.03	9772.35	5145.47	26183.93	6683.87	9771.19	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)	6685.03	9772.35	5145.47	26183.93	6682.95	9767.56	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	4973.28	7221.27	3778.15	19416.23	4971.2	7216.48	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	5002.77	7247.82	3808.61	19534.16	5000.69	7243.03	
6	Equity Share Capital	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	
7	Other Equity	51			121640.32			
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	Basic	7,42	10.78	5.64	28.98	7.42	10.77	
	Diluted	7.42	10.78	5.64	28.98	7.42	10.77	

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website viz. www.acilnet.com

On behalf of the Board of Directors

Bikramjit Ahluwalia Chairman & Managing Director DIN NO.00304947



TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. Registered Address: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park.

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024 NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal

heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 21-09-2023 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" and without any recourse basis", for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E-Auction at 2.00 P.M. on the said 21-09-2023. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E- Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 20-09-2023 till 5.00 PM, at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024. The sale of the Secured Asset/ Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below;

Sr. No	Loan A/c. No	Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative/ Guarantor(s)	Amount as per Demand Notice	Reserve Price	Earnest Money	Type of possession
1.	101626 96 & 102483 72	Mr. Neeraj Sharma. Mrs. Beena Nirwal	Rs. 14,30,224/- (Rupees Fourteen Lakh Thirty Thousand Two Hundred Twenty Four Only) is due and payable by you under Agreement no. 10162696 and an amount of Rs. 2,25,182/- (Rupees Two Lakh Twenty Five Thousand One Hundred Eighty Two Only) is due and payable by you under Agreement no. 10248372 totaling to Rs. 16,55,406/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Five Thousand Four Hundred Six Only) 07-06-2021	(Rupees Fifteen Lakh Eighteen Thousand Seven	Rs. 1,51,875/- (Rupees One Lakh Fifty One Thousand Eight Hundred Seventy Five Only)	Physical

Description of the Immovable Property: All That Pieces and Parcel of Property Bearing No. B-46 on the third floor with roof/terrace right left side back side portion of built-up property, admeasuring 50 sq. yds. i.e. 41.81 sq. mtrs., out of Khasra No. 317, situated in the revenue estate of Village Bindapur, Delhi Estate, Delhi, area abadi known as colony B- Block, Gali No. 3, Sanjay Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-110059 along with motor cycle parking, common staircase, fitted with electricity and water connection, along with proportionate undivided share in the land

Rs. 23,14,200/- (Rupees

Rs. 2,31,420/- (Rupees

Rs. 2,28,825/- (Rupees

Physical

Rs. 20,82,696/-

	27	TOMAR. MR. YOGESH KUMAR	07-06-2021	Twenty Three Lakh Fourteen Thousand Two Hundred Only)	Two Lakh Thirty One Thousand Four Hundred Twenty Only)	
Sect	or-3, F		garh, Dist. Faridabad		e No. 2876 – A / LIG /FF, Housing Brid registered Sal Deed bearing No.	

2 10651 Mr MOHIT Rs. 151613/- (Runees One Lakh Fifty One Thousand Six Physical

3.	FC 700 40 100 000	\$10.00 (1	Hundred Thirteen Only) is due and payable by you under Agreement no. 10653662 and an amount of Rs. 10362061/- (Rupees One Crore Three Lakh Sixty Two Thousand Sixty One Only) is due and payable by you under Agreement no. 10651224 totalling to Rs. 10513674/- (Rupees One Crore Five Lakh Thirteen Thousand Six Hundred Seventy Four Only)	1,34,75,000/- (Rupees One Crore Thirty Four Lakh	13,47,500/- (Rupees Thirteen Lakh Forty Seven Thousand Five Hundred Only)	riiyaicai
----	-------------------	---	---	--	---	-----------

Description of the Immovable Property: All that Pieces And Parcel Of Unit/Flat No. B-1605, Admeasuring 1750 Sq. Ft. Of Super Area, on the Sixteenth Floor of Block-B, in the Building known as 'Antriksh Nature' situated at Plot No. A-110, Sector-52 Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

Rs. 22,88,250/- (Rupees

010007 4729	Mrs. Pooja Goyal W/o Mr, Neeraj Agrawal,	23-09-2022	Eight Thousand Two Hundred Fifty Only)	Thousand Eight Hundred Twenty Five Only)	
CONTRACTOR REPORT			# 1. H.	. 108 at Third Floor of Multistore Built Up Area 622 Sq. ft. i.e. 57.	The second second second second

Rs. 22,97,714/-

Comprised in Khasra No 1514, Situated at Shri Krishna Gold Residency, Balkeshwar Kuni, Mauja Ghatwasan (Old Abadi), Ward Hariparvat, Tehsil & District Agra - 282005 (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in Sale Deed, Bounded :- East :- House of Santosh Sharma, West :- Corridor & Exit, North :- House of Kailash Chandra Jain, South :- House of Gourav Sharma. At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last

chance to pay the total dues with further interest within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable

Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further

conditions: NOTE: The E-auction of the properties will take place through portal http://bankauctions.in/ on 21-09-2023 between 2.00 PM to 3.00

PM with limited extension of 10 minutes each. Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shall at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer. 2. The Immovable Property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 12-09-2023 between 11 AM to 5.00 PM, with prior appointment, 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: as per table above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad – 500038 through its coordinators Mr Ariit Kumar Das. 8142000725, 8142000066, 8142000062 Email :- ariit@bankauctions.in and Email info@bankauctions.in or Manish Bansal, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696. Please send your query on WhatsApp Number - 9999078669. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/ borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3s1T501 for the above details. 15. Kindly also visit the link: https://www.tatacapital.com/property-disposal.html. Please Note - TCHFL has not

Sd/- Authorised Officer. Date :- 17-08-2023 Tata Capital Housing Finance Ltd.

engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property. Interested parties should only

contact the undersigned or the Authorised officer for all gueries and enquiry in this matter.

New Delhi

financialexp.epap.in





Authorised Officer, Canara Bank Vill. and PO Panhera Khurd Teh.

केनरा बैंक 🛕 Canara Bank POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule

Thousand Six Hundred Eighty Four and Fifty Four Paisa Only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provision of Section 13 (8) of the Act, in respect of time avialable, to redeem the secured assets,

Property of Mr. Sher Singh

n compliance with the above circulars, the companies will be sending electronic copies of Notice of the Dissemination on website: An electronic copy of Annual Report 2022-23 of the Company, inter-alia,

Manner of registration of e-mail address/Mobile No: Shareholders who wish to register their ema

	ISR-1 with RTA of the Company.
Shareholders holding shares in Dematerialized Form	Register/update the details in your Demat Account, as per process advised by your DP.
Manner of casting votes:	
The Company is pleased to offer the e-voting facility	보기지 시시 성하다 이름에 안 되었다면 있다면 하지만 하지만 하지 않는데 없어 되고 해가 되었다.

सलेम मंडल- सलेम मंडल में यात्री लिफ्ट

(अमृत भारत स्टेशन) का प्रावधान- 8 नग

(एनएमकेएल-2 नग, एसए-1 नग,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक/जीएसयू/सलेम द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा निविदा बंद कार्य का नाम होने की तिथि रु. में रु. में 11.00 बजे में सलेम मंडलः सलेम मंडल में एमटीपी स्टेशन (2 नग) तथा टीयुपी स्टेशन (1 नग) में अमृत 2.01.85.542.6/- 2.50.900/- 01/09/2023 भारत स्टेशन में एस्कैलेटर्स का प्रावधान। सलेम मंडल- सलेम मंडल में यात्री लिफ्ट (अमृत भारत स्टेशन) का प्रावधान-८ नग 2. (सीबीएफ-3 नग, पीटीजे-3 नग एवं एमटीपी-1.05.13,293.98/- 2,02.600/- 25/08/2023

1,05,13,293.98/- 2,02,600/- 25/08/2023

सीएचएसएम-2 नग एवं के आरआर-3 नग) पूर्णता अवधि (माह): 4

उक्त कार्य मद सं. 1 के लिये पात्रता मानदंडः स्टील संरचनाओं के फैब्रिकेशन तथा ईरैक्शन सहित कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य।

उक्त कार्यों मद सं. 2 और 3 के लिये पात्रता मानदंडः ट्रैक कार्य छोडकर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य। टिप्पणी: 1) किसी भी परिवर्तनों के लिये जारी किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच का दायित्व निविदाकारों का होगा। सम्पूर्ण विवरणों के लिये कृपया वेबसाईट www.ireps.gov.in देखें।

Follow us on : w twitter.com/GMSRailways

ग्रा. और पीओ पनहेरा खुर्द तह. केनरा बैंक 🛆 Canara Bank बल्लभगढ जि. फरीदाबाद - 121104 totatatu...

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.1.2023 जारी कर ऋणधारक **मै. चंचल फ्लॉवर मिल**, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री प्रेम चन्द को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 19,31,684.54/- (रु. उन्नीस लाख इक्कतीस हजार छः सौ चौडासी पैसे चौवन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 14 अगस्त, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,31,684.54/-(रु. उन्नीस लाख इक्कतीस हजार छ: सौ चौडासी पैसे चौवन मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम पनहेरा खुर्द, तहसील बल्लभगढ़, उप-तहसीलः मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित खेवत नं. 18, खतोनी नं. 28, रेक्ट. नं. 24, किला नं. 18(4-12) में शामिल सम्पत्ति 1 कनाल 12 मरला का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदी: उत्तर: श्री चरण सिंह की सम्पत्ति, दक्षिणः वेटेरिनरी हॉस्पीटल, पूर्वः रोड, पश्चिमः श्री शेर सिंह की सम्पत्ति।

तिथि: 17.8.2023, स्थान: पनहेरा खुर्द

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

CIN: L65910UP1993PLC070612 पंजी कार्यालयः शॉप नं. 1 और 3, ई-14/6, पहली मंजिल शांता टावर, संजय प्लेस, आगरा–282002

ईमेल आईडी: annainfra@gmail.com, वेबसाइट: www.annainfrastructures.com फोन नं. : 0562-4060806

सार्वजनिक सूचना- 31वीं' वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 31वीं' वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी), शॉप नं. 1 और 3, ई-14/6 प्रथम तल. शांता टावर, संजय प्लेस, आगरा-282002 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसायों को संचालित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं इसके तहत जारी किए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ-साथ एमसीए और सेबी द्वारा इस संबंध तें जारी किए गए अन्य लागु परिपत्र के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनियां एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की

इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज देंगी जिनकेई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

"आरटीए") / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपीएस") के साथ पंजीकृत हैं । **वेबसाइट पर प्रसारः** कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022—23 की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, अन्य बातों के साथ—साथ, जिसमें कंपनी का नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, को कंपनी की वेबसाइट www.annainfrastructures.com और स्टॉक इक्स्चेन्ज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

ई-मेल पता / मोबाइल नंबर के पंजीकरण का तरीका: जो शेयरधारक अपना ईमेल पता / मोबाइल नंबर पंजीकत करना चाहते हैं उनसे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकः

	आईएसआर—1 में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें।
डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकः	आपके डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाता में विवरण रजिस्टर/अपडेट करें।
वोट डालने का तरीकाः	

कंपनी अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पहले ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। यदि ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ विस्तृत प्रक्रिया ई–वोटिंग सहित पंजीकृत ई–मेल

आईडी पर भेजी जाएगी और एजीएम की सूचना में भी पंजीकृत है उपलब्ध होगी। यदि ई–मेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया ई–वोटिंग सहित एजीएम की सूचना में उपलब्ध होगी। के साथ पंजीकृत नहीं है।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 04 सितंबर, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अथवा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। अन्ना इंफ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

के लिए और उनकी ओर से (अएशा जैन महाजन) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः एफ -9711

SEASONS

दिनांकः 16.08.2023

स्थान : आगरा

SEASONS TEXTILES LIMITED

CIN -L74999DL1986PLC024058 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485, Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com Notice of 37th Annual General Meeting NOTICE TO SHAREHOLDERS

Seasons Textiles Limited scheduled to be held on Friday, 29th September 2023, at 11:30 AM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Video Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In view of the continuing the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

14/2020,17/2020 20/2020 02/2021, 21/2021 and 10/2022 dated April 8, 2020 April 13, 2020 May 5,2020 January 13, 2021 December 14,2021 and December 28,2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 37th AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent

only by electronic mode to those Members whose email address are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website, www.seasonsworld.comand website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited; www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing Remote e-Voting facility ("Remote e-Voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM ("e-Voting"): Detailed procedure for Remote e-Voting/e-Voting is provided in the Notice of the AGM.

SEBI vide circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e. Postal Address with PIN Code, email address, mobile number, bank account details) and nomination details by holders of securities in physical form, Any service request or complaint received from the Member will not be processed until the aforesaid details/documents are provided to RTA and on or after October 01,2023, in case any of the above cited documents details are not available in the folio(s), RTA shall be constrained to freeze such folio(s). Relevant details and prescribed forms in this regard are available on website of the Company (www.seasonsworld.com). Shareholders holding shares in physical mode are requested to comply with the above.

The Shareholders are requested to register/update their e-mail addresses and mobile number on or before August 23,2023 to receive Annual Report and Notice of AGM for the financial year ended March 31,2023.

If your email ID is already registered with the Company/Depository Participant, login details for e-Voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report and login details for e-Voting.

Physical Send a request to the Skyline Financial Services Pvt Ltd, Registrar and Share

Transfer Agent of the Company at compliances@skylinerta.com providing Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN card for registering email address. Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address

Holding as per the process advised by your DP. The Annual Report for financial year 2022-23 and Notice of 37" AGM of the Company will be sent to all the members at their registered email address in accordance with provisions of Companies

> By order of the Board For Seasons Textiles Limited

SAURABH ARORA Date: 17/08/2023 Company Secretary and Compliance Officer Place: New Delhi

Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

www.readwhere.com

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

न्त कार्यालयः ०९, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली — 110057 फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148 संपर्क पता:- भवन सं.27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र. बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

यह शद्धिपत्र इस समाचार पत्र में 12.08.2023 को प्रकाशित उधारकर्ताओं मकेश कमार के का उत्तराधिकारी (ऋण खाता संख्या HHFDELHOU19000005185) के सम्बन्ध में मांग नोटिस् विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें एनपीए की तारीख गलती से 08.08.2023 प्रकाशित हो गई थी. हालांकि सही तारीख 08.07.2023 है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे। कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांकः 17-08-2023,

अधिकृत अधिकारी

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ावत्ताय पारसपात्तया क प्रातभातकरण आर पुनानमाण तथा प्रातमात ।हत प्रवर्तन अधिनियम 2002

की धारा 13(2) के तहत नोटिस,

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रावधान के तहत अधोहस्ताक्षरी मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली–110049 (इसके बाद "एमबीएचएफ" के रूप में संदर्भित) में है,प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसे केंद्र सरकार ने दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसचना के माध्यम से विधिवत अधिकत किया गया है. "वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाता है,इसके द्वारा आपको निम्नलिखित नोटिस जारी किया जाता है

. जितेंद्र यादव पुत्र/पुत्री /हरपाल सिंह यादव, प्लॉट नंबर 55, एसएफ–4 सेक्टर 1 वसुंधर गाजियाबाद-201012 ,इसके अलावा यहां: डेयरी फार्म, स्वदेशी पॉलीटेक्स कवि नगर , निकट शनि मंदिर, गाजियाबाद-201002 ,इसके अलावा यहां: फ्लैट नंबर एसएफ 4, दूसरी मंजिल (पिछल इलाका / दक्षिण पश्चिमी भाग), पांडव नगर, प्लॉट नंबर 140, खसरा नंबर 306, निकट न्य एर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-201001.इसके अलावाः फ्लैट नंबर एसएफ-2, प्लॉट नंबर -140. महरौली, परगना-डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 १. सूनीता यादव पुत्र/पुत्री/ हरपाल सिंह यादव,प्लॉट नंबर 55, एसएफ–4 सेक्टर वसुंधर

गाजियाबाद-201012, इसके अलावा यहां: डेयरी फार्म, स्वदेशी पॉलीटेक्स कवि नगर निकट शनि मंदिर गाजियाबाद-201002. इसके अलावा यहां: फ्लैट नंबर एसएफ 4. दसरी मंजिल (पिछला रोड / दक्षिण पश्चिमी भाग), पांडव नगर, प्लॉट नंबर 140, खसरा नंबर 306, निकट न्यू एरा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पिन कोड –201001 इसके अलावाः फ्लैट नंबर एसएफ –2, प्लॉट नंबर 140, महरौली परगना डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

ऋण खाता संख्या/तिथिः LP0000000003060, LP0000000002980, LP00000000124, 24-03-2021, 28-02-2021, 31-10-2017

प्राप्त ऋण राशिः रु. 200000 , 300000, 1500000

स्थानः- दिल्ली/एनसीआर

अधिनियम की धारा 13(2)की सूचना के अनुसार मांग तिथि और राशि : 13.07.2023 के अनुसा

बंधक संपत्ति : महरौली परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 में स्थि प्लॉट नंबर 140, खसरा नंबर 306 पर आवासीय इकाई संख्या एसएफ–4, दूसरी मंजिल पर, माप–62 71 वर्ग मीटर का वह समस्त टुकड़ा, क्षेत्रफल 62.71 वर्ग मीटर। चौहद्दी इस अनुसार है :— उत्तरः प्लॉट नंबर 154, पूर्वः प्लॉट नंबर 141, दक्षिणः 7.35 मीटर चौड़ा ,पश्चिमः प्लॉट 139

दसके अलावा कारणों के साथ हमारा मानना है कि आप मांग नौटिस की सेवा से बच रहे हैं दसलिए मांग नोटिस का प्रकाशन किया जा रहा है। आपसे इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अतिरिक्त ब्याज, लागत आकरिमक व्यय, शूल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि का भूगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा करने पर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ,उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत आप सभी या किसी एक या उससे अधिक सुरक्षित संपत्तिये के सापेक्ष आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ता / ओं की इस सरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना भी शामिल है। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री / पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। कपया ध्यान दें कि आगे कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

थानः गाजियाबाद दिनांकः 17.08.2023

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मनीष उर्फ आशु उर्फ भोला, पुत्र सुखराम, पताः 9 / 1, अम्तिर कौर पुरी, टैंक रोड, प्रसाद नगर, दिल्ली, ने FIR No. 214/2020 U/s 454, 380, 34 IPC थाना रंजीत नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त मनीष उर्फ आशु उर्फ मोला मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त मनीष उर्फ आशु उर्फ भोला फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 214/2020 U/s 454, 380, 34 IPC थाना रंजीत नगर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मनीष उर्फ आशू उर्फ भोला से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 27.10.2023 को या इससे पहले हाजिर हो।

> आदेशानुसार सुश्री रूबी नीरज कुमार, अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, पश्चिम जिला, कमरा नं, 145, प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

रिटज मर्केन्टाइल लिमिटेड

DP/9076/CD/2023

पंजीकृत कार्यालय : 603, सेठी भवन, 7, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली- 110008 सीआईएन : L52110DL1985PLC019805, दूरभाष नं.: 011-25742255 वेबसाइट : www.ritzmercantile.com, ई-मेल : ritzmercantilelimited@gmail.com

30.06.2023 को समाप विमादी के अलेखामीश्रित विजीस प्रतिपामों त

विवस्ण	समाप्त तिमाही 30.06.2023	समाप्त तिमाही 31.03.2023	समाप्त तिमाही 30.06.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2023
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	131.89	638.56	-131.17	197,309
कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ/ हानि	-33.64	590.92	-67.42	149.672
सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ / हानि (असाधारण मदों के पश्चात)	-33.64	775.83	-67.42	334,582
इक्विटी शेयर पूंजी	1050000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
आरक्षितियां (तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनमूंल्यांकन आरक्षितियां को खेडकर)	9781.30	9,814.94	9,747.51	9814.94
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रत्येक के ऑकत मृल्य) वेसिक डाइल्युटेड	-0.03 -0.03	0.74 0.74	-0.06 -0.06	0.14
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मृल्य) वेसिक डाइल्यूटेड	-0.03 -0.03	0.74 0.74	-0.06 -0.06	0.32

- 1. परिणामों की समीक्षा तथा अनुमोदन 14.08.2023 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में उनके द्वारा किया गया। साविधिक लेखापरीक्षक ने सीमित समीक्षा संचालित की है।
- उ० जुन, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई निवेशक शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी तिमाही/ अवधि के प्रारम्भ ॥ अन्त में कोई शिकायत लम्बित नहीं है।
- कम्पनी केवल एक सेगमेंट में प्रचालन करती है। जहाँ आवश्यक समझा गया गत अवधि / वर्ष से सम्बन्धित आँकडों को पुनसंमुहीकृत, रीकास्ट तथा पुनवर्गीकृत
- कृते रिट्ज मकेटाइल लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14.08.2023

त्रिमाला वेंचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201307 सीआईएन: U74140DL2011PTC223313 संपर्क न.: +91 8506012097,

ईमेल आईडीः accounts@trimala.com फॉर्म नंबर आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 अनुसार बदलाव के लिए अखबार में विज्ञापन छपवाया जाएग

सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

त्रिमाला वेंचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटे ब (सीआईएन: U74140DL2011PTC223313) इसक पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, गली नंबर 2, प्लॉट न. 39, पूर्वी गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092 में है।

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि (कम्पनी) का पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीर राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के दिल्ली'' **'उत्तर प्रदेश राज्य''** में स्थानातरित करने लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 मई, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि / स्वीकृति के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी के माध्यम से केन्द्र सरकर के पास आवेदन

कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नः दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं पंजीकृत डाक से भेंजें तथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर आवेदक कम्पनी एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में जमा करें: पहली मंजिल, गली नंबर 2 प्लॉट न. 39, पूर्वी गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर

> के लिए और उनकी ओर र त्रिमाला वेंचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेर

दिनां कः 16.08.2023 स्थानः लक्ष्मी नगर, दिल्ली DIN:05173144

कार्यालय का पताः प्लॉट न. ३७, ब्लॉक-ए

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धार (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में केन्द्र

करने का प्रस्ताव करती है।

दिल्ली-110092 है।

हस्ताक्षा वरूण गोयल निदेशक

पुरुप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपघारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

ड्यूरा-लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U25209DL1996PTC081248) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **यनिट नंबर 10** और 10बी, साउदर्न पार्क, पहली मंजिल डी2. डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, दक्षिणी

दिल्ली-110017 में हैं. के मामले में

त्दद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 201: की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "गोवा राज्य" मे रथानांतरित करने के लिए 05 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख रे वाँदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी** क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

यूनिट नंबर 10 और 10बी, साउदर्न पार्क, पहली मंजिल डी2, डिस्टिक्ट सेंटर, साकेत, दक्षिणी दिल्ली-110017 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

ड्यरा-लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिनांक: 17.08.2023 एस्डोस करिआचन (निदेशक स्थान : नई दिल्ली ढीआईएन: 08000001

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

RAAMA PAPER MILLS LIMITED 4th Km. Stone Najibabad Road Kiratpur-246731 District Bijnor U.P.

CIN: L27104UP1985PLC007556 Website: www.ramapaper.com, E-mail: cs@ramapaper.com

Extract of Un-Audited Financial Results For the Quarter ended on 30th June 2023

(Rupees In Lakhs) Quarter Ended as Quarter Ending **Current Year** Particulars 30.06.2023 Ending 31.03.2023 on 30.06.2022 Total income from operations (Net) 2012.73 7704.65 1990.93 Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 39.75 (535.60)139.14 Net Profit / (Loss) for the period before Tax 39.75 (535.60)139.14 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 39.75 (535.60)139.14 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 39.75 (535.60)139.14 Equity Share Capital 96.64 96.64 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) Dividend on cumulative Preference Shares (146.38)(585.51)Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-(11.77)1.44 Basic: (1.10)Diluted: (1.10)(11.77)1.44

Note: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeetings held on 14th August 2023 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of Quarterly Financial Results has been uploaded on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS/AS Rules whichever is applicable.

Date: 14th August 2023 Place : Kiratour

Pramod Agarwal Managing Director (DIN: 00038838)



क कर्जराय का ऋणदाता

तिथि: 17-08-2023

आस्ति वसूली शाखा, संख्या ६, तृतीय तल, मेट्रो पिलर नंबर ८० के सामने, पुसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली — 110005 फोन : 011—35008283 मोबाइल : 7823919520, ई-मेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई-नीलामी सूचना ई-नीलामी 26-09-2023 को

है जो है", "कोई उपाय नहीं" तथा "जो भी है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार पर बेची जाएगी

सरफासी ऐक्ट के तहत अचल सम्पित्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतूक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार, दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा प्रत्याभूत लेनदार, दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे दिए विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", "जैसी

١	प्र). सं.	नाम	शाखा	अवस्थिति	प्रकार	सुरादारा मूल्य (राशि ८ ॐ	फोन •••• ८५
ı						(रू. में)	(रू. में)	नंबर / ई—मेल
	1.	मैसर्स वर्ल्ड कार्गो मूवर्स	ईस्ट ऑफ			49,00,000	4,90,000	श्री राजेश ठक्कर
ı		पगगा नूपस	कैलाश	जी–105 (यूजीएफ रियर साइड सम्पत्ति सं. 188(पुराना नंबर)				9910972101
ı				252—जे (नया नंबर), खसरा नंबर				rajeshthakkar @
ı				185/150/2/1 तथा 185/2/2 का भाग, ग्राम गढ़ी झरिया मरिया,				kvbmail.com
ı				संत नगर, नई दिल्ली–110065,				
ı				परिमाप लगभग 376.25 वर्ग फीट				

कर्जदारों का विवरण : ईस्ट ऑफ कैलाश शाखा कर्जदार का नाम – मैसर्स वर्ल्ड कार्गो मूवर्स इसके स्वामी श्री विश्व कल्याण गुप्ता, 105, साई प्लाजा, 187–188, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 द्वारा प्रतिनिधित्वकृत (२) श्री विश्व कल्याण गुप्ता पुत्र श्री के.एल. गुप्ता निवासी 109, आनंद विहार, पीतमपुर, नई दिल्ली-110034 कूल बकाया राशि : 10-08-2023 तक रू. 27,00,275.60 (रूपए सत्ताईस लाख दो सौ पचहत्तर तथा पैसे साठ मात्र) तथा उस पर देय आगे ब्याज, लागतें, अन्य प्रभार और खर्चे।

बंधक आस्तियां : कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस सम्पत्ति सं. 188(पुराना नंबर) 252—जे (नया नंबर), खसरा नंबर 185 / 150 / 2 / 1 तथा 185 / 2 / 2 का भाग, ऑफिस स्पेस नंबर जी—105 (यूजीएफ रियर साइड), ग्राम गढ़ी झरिया मरिया, संत नगर, नई दिल्ली–110065, परिमाप लगभग 376.25 वर्ग फीट तथा चौहददी निम्नानुसार : **पूरब :** सम्पत्ति सं. 187,

सुरक्षित मूल्य – रू. 49,00,000.00	ईएमडी — 4,90,000.00
आस्ति का निरीक्षण	सभी कार्य दिवस — 17—08—2023 से 25—09—2023 तक पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 5.00 बजे के बीच
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र	तिथि : 25–09–2023 समय : अप. 5 बजे तक
जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय ई—नीलामी की तिथि और समय	ई—नीलामी पोर्टल पर दिनांक 26—09—2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से 11.30 बजे के बीच बिक्री सम्पन्न होने तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ होगी
नोडल बैंक खाता नाम	दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सेन्ट्रल ऑफिस, उपरोक्त खातों के पक्ष में खाता नंबर : 1101351000000973, आईएफएससी कोड : KVBL0001101
सम्पर्क व्यक्ति एवं फोन नंबर	उपरिवर्णित अनुसार
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए	, कृपया बैंक की / प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.kvb.co.in/Property Under

Auction और ई—नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के वेबपोर्टल https://bankauctions.in में भी उपलब्ध करवाया गया

पूर्व ऋणभार – शून्य (बैंक के संज्ञान में लाया गया) सरफासी ऐक्ट, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार / रों और गारंटर / रों को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित बकाया राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों सहित, ई—नीलामी की तिथि से पहले चुका दें, जिसमें असफल रहने पर, अनुसूची सम्पत्ति नीलाम/बिक्री की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

ई-नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV ए) [नियम ८(६)] वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (ए में डंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाख कार्यालय : "316 – पूर्णिमा प्लाजा, द्वितीय तल, जीएमएस – रोड, देहरादून – 248001" के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकार्र ('एओ') ने, आईआईएफएल-एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु. निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार व साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधीहस्ताक्षरकत द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा। ऋणकर्ता(औं) / सह — मांग सचना तिथि एवं राषि अचल संपत्ति /पतिभत सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि

गविंत सिंघवी

पूर्णकालिक निदेशक

द्यीआइंएन ००५१७७७

केवल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति हेत् उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भूगतान करना होगा।

में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा

	369147(11(GI)) 416 -	नान सूचना साव रव साव	order traitery situates	TIIY	गरायं जायंत्रहर्ग यंग रिराय	on data gen
- 1	ऋणकर्ता (ओं) /	8	परिसंपत्ति का विवरण		04—मार्च—2023	₹. 5,80,000 / —
	गारंटर(रों) के नाम 1. श्रीमती दीना 2. जगदंबा जनरल स्टोर एंड भोजनालय 3. श्री राजेंद्र	20—दिसंबर—2022 और रु. 8,62,933 / — (रुपये आठ लाख बासठ हजार नौ सौ तैंतिस मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो संपत्ति खाता सं. 0027 के रूप में, भूमि क्षेत्रफल 827 वर्ग फुट, जो खसरा सं. 6117 मिन. में समाविष्ट, मौजा भीमावाला, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड,		देनांक 02–अग.–2023 को कुल बकाया रु. 9,47,467/– गौ लाख सैंतालिस हजार चार	(रुपये पांच लाख अस्सी हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी)
	(प्रोस्पेक्ट नं. आईएल10232238)	बोली वृद्धि राशि रु. 20,000 /— (रुपये बीस हजार मात्र)	भारत, 248001 में स्थित है। (निर्मित क्षेत्राधिमापन 940 वर्ग फुट)		सौ सतसठ मात्र)	रु. 58,000 / — (रुपये अट्ठावन हजार मात्र)
- [संपत्ति	के निरीक्षण की तिथि	धराज अंतिम तिथि		ई—नीला	मी की तिथि/समय
-	25—अगस्त—2	023 को 11.00 — 14.00 बजे	29—अगस्त—2023 को 5 बजे तक		31—अगस्त—20	023 को 11.00—13.00 बजे
- [भगतान का माध्यम :	धराज भगतानों को केवल ऑनलाइन विधि	ो दारा किया जाना है। भगतान करने के लिये	आपको	https://www.bankeauct	ions.com पर विजिट करना होगा अँ

सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:— आईआईएफएल होग फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम - स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ग) खाता सं: 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टर

1. ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छूक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com

टिप्पणीः प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजिनव

साथ पंजीकत कर लें और उन्हें इस हेत लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सजित करना होगा। इच्छक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भगतान विवरणों, केवाईसी ए पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत / प्रेषित करने होंगे। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को. स्तंभ "बोली वृद्धि राषि" के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। 3. सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि व शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभृत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपूष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारू

4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्यु प्रभारों. भिम एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भगतान वहन करना होगा। 5. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदर प्रपन्न हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें।

6. विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रिषक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com, सहायत हेल्पलाइन नंबर्सः @7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं। 7. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली, इत्यादि से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आईआईएल एचएफएल टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से सायं 18.00 बजे तक कॉल करें या auction.hl@iifl.com पर ईमेल करें।

स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत उत्तरदायी नहीं होगी। 9. एतदद्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने में विफल होते हैं तो उन्हें विधि—व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा। 10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भूगतान में चुक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता व गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 11. एओ के पास यह अधिकार सरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी

8. एतदद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलु वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पति

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना ऋणकर्ता को एतदृद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा ⁄ नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुपंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगता करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। स्थान : देहरादून, दिनांक : 17-अगस्त-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड



किया जाता है।

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)

रजिस्टर्ड कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तिमलनाडु-600 002

कब्जा सचना (धारा 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेत्) जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के तहत मैसर्स इक्विटास स्मा फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए एक म पचना जारी की थी। चंकि नीचे वर्णित कर्जदार निर्धारित समय के भीतर नीचे वर्णित राशि का भगतान करने में असफल रहे अत: एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसाम को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदर शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा अनुसूचित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न कर

की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यधीन होगा

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम (शाखा का नाम)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सांकेतिक कब्जा करने की तिथि
1	शाखा - कोटपूतली ऋण संख्या - SEKOTPT0328831 कर्जदार : श्रीमती शीला देवी सह-कर्जदार: श्री सुरेंद्र सिंह	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति, पट्टा संख्या 35, पुस्तक संख्या 08, संकल्प नं. 2/37, ग्राम पंचायत मोहनपुर, पंचायत सिमिति बानसूर, जिला अलवर, (राजस्थान) का समस्त भाग, क्षेत्रफल 295.55 वर्ग गज /2660 वर्ग फुट। उस पर सभी वर्तमान और भावी अधिरचना के साथ। उक्त संपत्ति की सीमाएं:- उत्तरः खाली भूमि, दक्षिणः शारदा देवी का घर, पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः आम रास्ता, माप क्षेत्र 295.55 वर्ग गज/2660 वर्ग फुट	08-05-2023 & 399160	11-08-2023
2	शाखा - पाली ऋण संख्या- SEIBLI0172630 कर्जदारः श्री फारुख खान सह-कर्जदारः श्री बाबू खान खोखर, श्रीमती खातून बानो, श्रीमती हिना बानो	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति, मकान नंबर 98 का समस्त भाग, राम रहीम कॉलोनी, पाली (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल 118.12 वर्ग गज, उस पर सभी वर्तमान और भावी अधिरचना के साथ। उत्तरः पित गीता देवी, दक्षिणः कामरू खान, पूर्वः सड़क, पश्चिमः छोटू घाची, मापः 118.12 वर्ग गज, पाली के उप- पंजीकरण जिले और पाली के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है	31-05-2023 & 627285	10-08-2023
3	शाखा - बांसवाड़ा ऋण संख्या - SEBNSWR0347512 सह-कर्जदारः श्रीमती शारदा सह-कर्जदारः श्री रमेश, श्री जनमेश	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति हैं, मकान नंबर 42 का समस्त भाग, वार्ड नंबर 13, ग्राम सरगडवाड़ा (खांटवाड़ा) शहर बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) में स्थित (माप क्षेत्रफल 1151.43 वर्ग फीट) सभी वर्तमान और भावी अधिरचना सिहत। उक्त संपत्ति की सीमाएं : पूर्वः अरविंद का घर पश्चिमः मुख्य सड़क उत्तरः नाथू का घर दक्षिणः श्रीमती सुनीता पत्नी राजेंद्र डामोर का घर	19-07-2022 & 295126	10-08-2023
4	शाखा-राजसमंद ऋण संख्या – SERJMND0289644 कर्जदार: श्री मुकेश बेरवा सह-कर्जदार: श्रीमती बिंद	श्रीमती रामी बाई बैरवा पत्नी श्री शंकर जी बैरवा के स्वामित्व वाली गैर कृषि संपत्ति, गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति मकान नंबर 1287 का समस्त भाग, ग्राम भुरवाड़ा, ग्राम पंचायत कुराज, पंचायत समिति रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.) 313328 में स्थित (क्षेत्रफल 858 वर्ग फुट) सभी वर्तमान और भावी अधिरचना सहित। उक्त संपत्ति की सीमाएं:- पूर्व- आम रास्ता,	31-05-2023 & 358267	10-08-2023

वर्तमान आर भावा आधरचना साहत। उक्त संपत्ति का सामाए:- पूव- आम रास्ता, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- मोहम्मद/मंगू जी रंगरेज, दक्षिण- आम रास्ता, बैरवा, श्री जगदीश चंद्र बैरवा, रेलमंगरा के उप-पंजीकरण जिले और राजसमंद के पंजीकरण जिले में स्थित श्री रामी बाई बेरवा अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटे तिथि : 17.08.2023 स्थान : राजस्थान